

कोविड -19 भ्रांतियों से बचें



PraDigi
PRATHAM DIGITAL

❌ भ्रांति

ब्लीच, सिरका, नमक डले पानी, शराब के साथ गरारे करना या इनको पीना आपको COVID-19 से बचाएगा।

आपके शरीर पर शराब या क्लोरीन का छिड़काव कोविड वायरस को मारता है।



✅ तथ्य

नहीं, आपको कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना होगा। ब्लीच, सिरका, नमक डले पानी या शराब के साथ गरारे करना या उनको पीना आपको कोविड-19 संक्रमण के खतरे से नहीं बचा सकता।

इस दावे के पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ऐसा करने से शरीर के अंदर का वायरस मरता नहीं है, बल्की ऐसा करना शरीर के लिए हानिकारक भी होता है।

